



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 2012/चैत्र 4, 1934

No. 134]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 2012/CHAITRA 4, 1934

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी  
(आयुष) विभाग]

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2012

सा.का.नि. 249(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33-ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को एतद्वारा उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त अधिनियम की उक्त धारा के अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की सार्वजनिक की गई प्रतियों के प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई है, सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं ;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होंगे, पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

## प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है ।  
(2) य राजपत्र में अपने अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945, के नियम 161 में,—  
(क) उप-नियम (1) में,—  
(i) "सभी घटकों की सत्य सूची" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे नामतः :—  
"जिसमें, यहां घटकों के प्रयुक्त भाग और रूप के साथ उनके अधिकारिक एवं वानस्पतिक नामों (जड़ी-बूटीय घटकों के लिए) सहित" ;  
(ii) "अधिनियम की प्रथम अनुसूची" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे नामतः :—  
"तथा पेटेंट या एकायत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी औषधों के संबंध में, इसकी मात्रा सहित, जिसमें, इसका औषध योग में प्रयुक्त किया गया है, घटक के प्रयुक्त भाग और रूप के साथ उनके आधिकारिक एवं वानस्पतिक नामों (जड़ी-बूटीय घटकों के लिए) सहित सभी घटकों की सत्य सूची" ;  
(ख) उप-नियम (3) में,—  
"आयुर्वेद (सिद्ध सहित) या यूनानी औषध" शब्दों एवं कोष्ठकों के पश्चात् "तथा पेटेंट या एकायत आयुर्वेद,

सिद्ध या यूनानी औषध" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे ;  
 en (i) में "इसके लिए" शब्दों के पश्चात् "आयुर्वेद,  
 सिद्ध या यूनानी औषध" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. के-11020/05/2011-डीसीसी (आयुष)]

बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव

**पादटिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या  
 एफ. 28-10/45-एच (1), तारीख 21 दिसंबर, 1945  
 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन  
 सा.का.नि. 76(अ), तारीख 8-2-2012 द्वारा किया  
 गया ।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy,  
 Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)]

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2012

**G.S.R. 249(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 which the Central Government proposes to make rules in exercise of the powers conferred by Section 33-N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is hereby published as required by the said Section of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objection or suggestion, if any may be addressed to the Secretary, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare, Indian Red Cross Society Building, New Delhi-110001;

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the above said draft rules within the period specified above, will be taken into consideration by the Central Government.

#### DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2012.  
 (2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, rule 161,—  
 (a) in sub-rule (1),—  
 (i) after the words "true list of all ingredients" the following shall be inserted namely :—  
 "with their official and botanical names (for herbal ingredients) alongwith part used and form of ingredients, in which, it is";  
 (ii) after the words "First Schedule of the Act" the following shall be inserted namely :—  
 "and in respect of Patent or Proprietary Ayurveda, Siddha or Unani drugs, the true list of all the ingredients with their official and botanical names (for herbal ingredients) along with part used and form of ingredient, in which, it is used in the formulation, with its quantity";  
 (b) in sub-rule (3),—  
 After the words and brackets "Ayurveda (including Siddha) or Unani drug" the words "and Patent or Proprietary Ayurveda, Siddha or Unani drugs" shall be inserted;  
 In item (i), for the words "For this", the words "For Ayurveda, Siddha or Unani Drug" shall be substituted.

[F. No. K-11020/05/2011-DCC (AYUSH)]

BALA PRASAD, Jt. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in Official Gazette *vide* Notification No. F. 28-10/45-H(I) dated the 21st December, 1945 and the last amended *vide* No. G.S.R. 76(E), dated 8-2-2012.